

# Manufacturing PMI Climbs to 17-Yr High of 59.2 in July

International orders surged to their strongest level since the series began

## Our Bureau

New Delhi: India's private sector activity remained strong in July, maintaining a reading above the 50 mark for the second consecutive month, with the manufacturing sector recording its highest level in 17 years, growing faster than services, according to a private survey.

The IHS Markit India Composite Output Index was at 60.7 in July, slightly lower than 61 in June. The Composite Purchasing Managers Index (PMI) is a weighted aver-

age of comparable manufacturing services index. "India's composite PMI remained healthy in July. The strong performance was bolstered by growth in total sales, export orders, and output levels," said Pranjul Bhandari, chief India economist at IHS Markit.

Manufacturing PMI climbed to 59.2, its highest level in around 17 years, "indicative of a robust improvement in the health of the manufacturing industry over the second consecutive month, with the manufacturing sector recording its highest level in 17 years, growing faster than services, according to a private survey."

The PMI for India Compo-

"Growth of new exports accelerated in the service economy, whilst it slowed among goods producers," it added.

Similarly, regarding output,

"factory managers reported a sharp increase in new orders than the service sector, with growth accelerating in the former but easing in the lat-

ter," it added.

Overall, sales expanded at their quickest pace in a year.

"The most significant factor led to this was accelerating factors of expansion of services for all of the three metrics - sales, output and export orders," said Bhandari.

International orders surged to their strongest level since the series began, the survey noted, driven by demand from across the world, including Asia, Europe and US.

"Growth of new exports accelerated in the service economy, whilst it slowed among goods producers," it added.

However, job creation slowed in July, with the sharpest decrease in employment growth in 15 months, with a notable slowdown in the services sector.

Meanwhile, inflationary pressures continue to heat up as both input costs and output

charges rose in July, said Bhandari.

According to the firms surveyed, prices rose in aluminum, cotton, foodstuffs (cooking oil, egg, meat, vegetables), rubber, steel and transportation. Service firms faced a steeper rise in input costs than manufacturers.

"Charge inflation likewise intensified in July as private sector companies sought to share additional cost burdens with their clients by lifting prices," said Bhandari.

Business sentiment, meanwhile, dropped to its lowest level since March 2023, though firms remained optimistic about output growth in the next three months.

"Finally, business confidence fell to its lowest mark since March 2023, while employment growth moderated to its weakest pace in 15 months," said Bhandari.

## Oil Cos' Captive Pipelines may Come Under Regulator's Ambit

Move aims to address regulatory ambiguity, ensure fair competition



Sanjeev Choudhary

New Delhi: The oil ministry is planning to bring oil companies under the ambit of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB), a move that will help the regulator monitor these pipelines and eventually convert them into common carriers where needed.

The ministry plans to do this by August 15.

"There is a certain ambiguity on dedicated pipelines to which the amendment will clarify," an official said, adding that the aim is to get companies to register their dedicated pipelines with the regulator following common safety protocols. "Companies won't be required to seek authorisation from the PNGRB

for the existing dedicated pipelines."

The law doesn't recognise what oil companies call "captive" pipelines and instead uses the term "dedicated" for pipelines that are used solely by companies for their own operations. But to us, other pipelines are categorised as either common carrier or contract carrier.

Oil companies file such "captive" or "dedicated" pipelines years ago have resisted PNGRB's attempts to regulate them or turn them into common carriers. Executives at state-run oil companies remain wary of perduring access to their pipelines, fearing it would lead to a loss of market share for state-owned firms.

The law already permits the PNGRB to declare a dedicated

## Zydus Moves Delhi HC Bench on Cancer Drug

### Indu Bhan

New Delhi: Zydus Lifecare has moved the division bench of the Delhi High Court against its single judge's earlier order that temporarily restrained the drugmaker from manufacturing and selling blockbuster cancer drug Sutent ( pazopanib), a therapeutic antibody used in the treatment of cancer.

The division bench sought responses from the US company, which had alleged its competitor Squibb had filed a writ petition against its blockbuster anticancer drug Odypta (nivolumab).

While Squibb alleged that Zydus was conducting clinical trials for nivolumab and had filed a writ petition during its valid patent period, the Indian company denied the allegations, saying its product ZRC-3276 does not infringe upon the existing patented drug, which the company had applied for a marketing approval with the central drug regulatory agency.

Zydus' efforts to transport infrastructure and storage is key to dominance in the fuel market. Private refiners currently hold about a 10% share of the market, but are yet to capture a significant market share. With greater access to state firms' pipelines, they could further increase their market share.

## C. V. NAGESH ASSOCIATES ADVOCATES

C.V.Nagesh  
Senior Advocate  
**Associates:**  
S.R. Chandregowda  
R. Prakash Reddy  
K. Jayaraj Naik  
S.R. Ravishankar  
M.R. Aneel A.S. Mallikarjuna  
Raghavendra K

#33, GANGE,  
Patalamma Temple Street,  
Basavanagudi,  
Bangalore-560 004.  
Tel : 26577424  
Tele. Fax: 26578856  
e-mail : admin@cvnlawchambers.com  
Date: 23-07-2025

### CAUTION NOTICE

Our clients M/s. PI Investment Advisory LLP (the Firm) manages investments of "Premji Invest" which is the business name for investments made by the Family Office of Mr. Azim Hasham Premji.

Certain persons taking advantage of the reputation of 'Premji Invest' have created fake websites, WhatsApp groups, social media and mobile applications and utilising certain publicity materials, have impersonated themselves as representatives of our client firm and are luring gullible members of the public to invest and make payments into their fake Firms/Bank Accounts. On getting knowledge of the fraudulent acts committed by the fraudsters, our clients have immediately informed the regulators (including SEBI) and have also filed complaints with the National Cyber Crime reporting Portal. Thereafter, on 18th July, 2025, our clients have lodged a criminal complaint against the fraudsters and a First Information Report (FIR) has been registered by the Eastern CEN Police Station, Bengaluru, under the provisions of Information Technology Act and other allied offences and the same is under investigation.

The General Public is hereby cautioned not to make any payments/investments into such fake and fictitious Firms and if in the event they have already fallen prey to such fraudster, the same may be reported to the Eastern CEN Police Station, Bengaluru.

  
Raghavendra K  
C.V. NAGESH ASSOCIATES,  
ADVOCATES,  
BENGALURU.

## APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443  
Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092  
Corp. Office: SC Centre, 37C, Block B, Sector 132, Noida, U.P. 201304  
Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com  
Tel: 0120-6918000



### EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ in Crs. except earning per share data)

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		June 30, 2025 (Unaudited)	June 30, 2024 (Unaudited)	
1	Total Income from Operations	5,169.77	4,974.30	20,689.54
2	EBITDA (Including other income)	397.57	326.36	1,295.04
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	237.77	193.17	757.06
6	Total Comprehensive Income for the period	255.95	198.96	742.36
7	Equity Share Capital	55.51	55.51	55.51
8	Other Equity	-	-	4,153.21
9	Earnings Per Share (face value of ₹2/-not annualised for quarterly figures) Basic Diluted:	8.55 8.54	6.95 6.96	27.28 27.28

(₹ in Crs.)

1	Brief of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025:	Quarter ended		Year ended
		June 30, 2025 (Unaudited)	June 30, 2025 (Unaudited)	
1	Particulars			
	Income from Operations	3,727.54	3,501.34	14,360.71
	Profit Before Tax	156.44	123.41	424.54
	Profit After Tax	116.05	92.44	335.59
2	The above is an extract of the detailed form of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities Listing Obligation and Disclosure Requirements (Regulations), 2015. The full form of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) ( <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and <a href="http://www.nsindia.com">www.nsindia.com</a> ) and on the Company's website " <a href="http://www.aplapollo.com">www.aplapollo.com</a> ". The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.			

Place: Noida  
Date: 24 July, 2025



For APL Apollo Tubes Limited  
Sd/-  
Sanjay Gupta  
Chairman and Managing Director

**DESH KI  
BĀDHTI  
TAQAT**

## ANANT RAJ LIMITED

(CIN: L45400HR1985PLC021622)

Regd. Office : Plot No.: CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana - 122051  
Head Office : H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001, Tel: 011-23324127, 23323880, 43582879  
Anant Raj Limited E-mail: [secretarial@anantrajlimited.com](mailto:secretarial@anantrajlimited.com), Website: [www.anantrajlimited.com](http://www.anantrajlimited.com)

### EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Sl. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED		YEAR ENDED
		30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited) [Refer Note 2]	
1.	Total Income from operations (Net)	602.40	550.90	481.66
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items and share of profit/(loss) in associates and jointly controlled entities)	150.38	140.93	103.74
3.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, share of profit/(loss) in associates and jointly controlled entities and after Exceptional Items)	150.38	140.93	103.74
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (after Exceptional Items and share of profit/(loss) in associates and jointly controlled entities)	125.90	118.79	91.01
5.	Total comprehensive income for the period (comprising Profit for the period (after Tax) and other comprehensive income (after Tax))	125.90	117.88	91.01
6.	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 2/- each)	68.65	68.65	68.65
7.	Other Equity			4,092.14
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualized) (a) Basic EPS (Rs.) (b) Diluted EPS (Rs.)	3.67 3.67	3.47 3.47	2.66 2.66
				12.43 12.43

NOTES :

1. The above unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2025, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 24, 2025. The Statutory Auditors of the Company have not yet completed their audit of the financial results for the quarter ended June 30, 2025.

2. The figures for the quarter ended March 31, 2025, are the balancing figures between the audited figures for the full financial year ended March 31, 2025, and the unaudited figures for the nine months ended December 31, 2024.

3. These unaudited consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of India Accounting Standards (Ind AS-34) "Interim Financial Reporting" as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time. The said financial results represent the results of Anant Raj Limited ("the Company"), its subsidiaries (together referred as "Group") and its share in financial results of its associates and joint ventures.

4. Subsequent to the quarter end, the shareholders of the Company at the 40th Annual General Meeting held on July 23, 2025, approved the final dividend @36.50% i.e. Re. 0.72 per equity share (face value of Rs. 2 per equity share) amounting to Rs. 25.00 crores for the financial year ended March 31, 2025.

5. During the quarter ended June 30, 2025, the Company redeemed non-convertible debentures amounting to Rs. 50 lakhs, which were originally issued on March 4, 2023.

6. The standalone financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 are available on the Company's Website ([www.anantrajlimited.com](http://www.anantrajlimited.com)).

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION IS GIVEN BELOW :- (Rs. in Crores)

Sl. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED		YEAR ENDED
		30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited) [Refer Note 2]	
1.	Total Income	371.04	355.07	284.29
2.	Profit/(Loss) before tax	82.72	77.52	56.86
3.	Profit/(Loss) after tax	69.70	65.11	42.28
4.	Other Comprehensive Income/(Loss)	-	(0.89)	(4.73)
5.	Total Comprehensive Income/(Loss)	69.70	64.22	42.28

7. The above is an extract of the detailed form of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of unaudited financial results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2025, are available on websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited ([www.nsindia.com](http://www.nsindia.com) & [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on the Company's website at [www.anantrajlimited.com](http://www.anantrajlimited.com), the results can also be accessed by scanning the QR Code provided below:



For and on behalf of the Board of Directors  
For ANANT RAJ LIMITED  
Sd/-  
AMIT SARIN  
Managing Director

DIN : 00015837

PLACE : NEW DELHI

DATE : JULY 24, 2025



## KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72400MH2017PLC444072

Registered office address: 301, The Centrium, 3rd Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Mumbai - 400070, Maharashtra  
Tel. No.: 022 4962 0337, Website: www.kfintech.com, Email: investorrelations@kfintech.com

## EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ in Millions)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	
		(Unaudited)	(Audited - Refer Note 4)	(Unaudited)	(Audited)
1	Revenue from operations	2,740.58	2,826.98	2,375.62	10,907.52
2	Net profit before tax (from ordinary activities)	1,049.05	1,142.25	918.06	4,475.90
3	Net profit before tax (after extraordinary activities)	1,049.05	1,142.25	918.06	4,475.90
4	Net profit after tax attributable to shareholders of the Company	772.57	850.53	680.72	3,326.25
5	Total comprehensive income attributable to shareholders of the Company	779.24	840.85	680.81	3,324.24
6	Paid-up equity share capital	1,721.88	1,720.83	1,713.20	1,720.83
7	Reserves (excluding "revaluation reserve")	13,199.27	12,357.47	10,463.32	12,357.47
8	Securities premium account	5,817.39	5,768.60	5,615.45	5,768.60
9	Earnings per equity share ('EPS') [face value of share: ₹ 10 each]*				
	Basic	4.49	4.95	3.98	19.39
	Diluted	4.45	4.91	3.94	19.27

\*EPS is not annualized for the periods.

## Notes:

1 Financial results of KFin Technologies Limited (standalone financial results)

(₹ in Millions)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	
		(Unaudited)	(Audited - Refer Note 4)	(Unaudited)	(Audited)
1	Revenue from operations	2,644.50	2,742.85	2,295.91	10,554.99
2	Net profit before tax (from ordinary activities)	1,027.17	1,094.37	911.73	4,381.96
3	Net profit before tax (after extraordinary activities)	1,027.17	1,094.37	911.73	4,381.96
4	Net profit after tax	760.97	814.73	678.54	3,255.48

2. The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and are in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).  
3. The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on July 24, 2025. The statutory auditors have expressed an unmodified review conclusion on these results.  
4. The figures for the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year 2024-25 and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the financial year 2024-25, which were subject to limited review.  
5. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com and the Company i.e. www.kfintech.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided below.



for KFin Technologies Limited

SD/-  
Sreekanth Nadella  
Managing Director and Chief Executive Officer  
DIN: 08659728

Adfactors 295/25

Place: Mumbai

Date: July 24, 2025

## APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443

Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092  
Corp. Office: SG Centre, 37C, Block B, Sector 132, Noida, U.P. 201304  
Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com  
Tel: 0120-6918000



## EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ in Crs. except earning per share data)

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		June 30, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	5,169.77	4,974.30	20,689.54
2	EBITDA (Including other income)	397.57	326.36	1,295.04
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	237.17	193.17	757.06
6	Total Comprehensive income for the period	255.95	198.96	742.36
7	Equity Share Capital	55.51	55.51	55.51
8	Other Equity	-	-	4,153.21
9	Earnings Per Share (face value of ₹2/-not annualised for quarterly figures) Basic: Diluted:	8.55 8.54	6.96 6.96	27.28 27.28

Notes: (₹ in Crs.)

1	Brief of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025:
	Particulars
	Quarter ended
	June 30, 2025      June 30, 2024      March 31, 2025
	(Unaudited)      (Unaudited)      (Audited)
	Income from Operations
	3,372.54      3,501.34      14,360.71
	Profit Before Tax
	156.44      123.41      424.54
	Profit After Tax
	116.05      92.44      335.59
2	The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com". The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.

Place: Noida  
Date: 24 July, 2025

For APL Apollo Tubes Limited

Sd/-  
Sanjay Gupta  
Chairman and Managing Director

## CORDS® Cords Cable Industries Limited

Registered Office: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg,  
Near Okhla Industrial Area Phase-II, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110020  
Tel: 011-40551200 \* Fax: 011-20887232 \* E-mail: coil@cordscable.com  
website: www.cordscable.com \* CIN: L74999DL1991PLC046092

## NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that 21<sup>st</sup> meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, July 31<sup>st</sup>, 2025 to consider and approve, inter alia, Un-audited Financial Results alongwith Limited Review Report by the statutory auditor for the 1<sup>st</sup> Quarter/ 3 months ended on June 30<sup>th</sup>, 2025 and other items as per agenda.

The above information is also available on the website of the company viz. ([www.cordscable.com](http://www.cordscable.com)) and the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed viz. ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company has already been closed for all the designated persons and their immediate relatives w.e.f July 01<sup>st</sup>, 2025 till 48 hours after the Un-audited Financial Results for the 1<sup>st</sup> Quarter/ 3 months ended on June 30<sup>th</sup>, 2025 is made public.

By Order of Board of Directors

For Cords Cable Industries Limited

Sd/-

Garima Pant

Company Secretary

Place: New Delhi  
Date: July 23, 2025

## DHANUKA AGRITECH LIMITED

Corporate Identity Number: L24219HR1985PLC122802

Registered &amp; Corporate Office: Global Gateway Towers, M.G. Road,

Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram-122 002, Haryana, India

Tel: +91 124 434 5000 | Email: investors@dhanku.com | Website: [www.dhanku.com](http://www.dhanku.com)

## NOTICE TO SHAREHOLDERS

## SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that Pursuant to SEBI Circular No.SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97, dated July 02, 2025, the Company is pleased to offer one time special window for physical shareholders to submit re-lodgement requests for the transfer of shares. The Special Window will be open from July 07, 2025 to January 06, 2026 and is applicable to cases where original share transfer requests were lodged prior to April 01, 2019 and were returned/unattended or rejected due to deficiencies in documentation, process or any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window. Eligible shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Abhipra Capital Limited at [info@abhipra.com](mailto:info@abhipra.com); Contact Number: 9810687661, Unit: Dhanku Agritech Limited, A-387, Abhipra Complex, Dilkhush Industrial Area, G.T Karnal Road, Azadpur, Delhi - 110033, India.

For Dhanku Agritech Limited

Sd/-

Jitin Sadana

Company Secretary and Compliance Officer

FCS-7612



## MAESTROS ELECTRONICS &amp; TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS LIMITED

Registered Office: Plot No. EL/66, TTC Industrial Area, Electronic Zone, Mahape, Thane, Navi Mumbai- 400701,

CIN: L74900MH2010PLC200254

Tel No: +91-22-2761 11 93 | Email id: [cs@metsl.in](mailto:cs@metsl.in) | Website: [www.maestroselectronics.com](http://www.maestroselectronics.com)



## 66 नक्सलियों ने किया सरेंडर

■ भाषा, बस्तर: छातीसगढ़ के बस्तर डिविजन के पांच जिलों में गुरुवार को 66 नक्सलियों ने सुरक्षात्मकों के समन सरेंडर कर दिया। प्रौद्योगिक वाले नक्सलियों में से 49 पर 2.27 करोड़ रुपये का इनाम था। अधिकारियों ने बताया कि बस्तर क्षेत्र के बाजापुर जिले में 25, दत्तेवाड़ा में 15, कांकर में 13, नारायणपुर में आठ और सुकमा में पांच नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी गई है और सरकार को नीति के अनुसार उनका पुरावंश किया जाएगा।

## हिमाचल: बस खाई में गिरी, 8 की मौत

■ आईएनएस, शिमला: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुरुवार को हिमाचल रोड परिवहन निगम (एपआरटी) की एक बस पहाड़ी से नीचे गिर गयी। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बस में 30 यात्री थे।

घायलों को सरकारी करबे के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बाकी लोगों की मौत पर भी खोल जाएगी। हादसे का कारण अभी जान नहीं चल सका है और जाच जारी है।

## नियम तोड़ने पर एयर इंडिया को DGCA से मिले 4 नोटिस

एयरलाइन ने कहा, समयसीमा के अंदर जवाब देंगे

Maneesh.Aggarwal  
@timesofindia.com



मंत्री बोले, निर्देश न मानने पर कार्रवाई

नागर नियम नारायण भारती अल्टर्नेटिव प्लानिंग के द्वारा नियम अधिक तोड़ जाना बताया गया है। इससे पहले भी नियम तोड़ने पर डीजीसीए एयर इंडिया के नियम अधिकारी ने बताया कि समेत पेनल्टी लाला चुका है।

मामले में एयर इंडिया का कहाना है कि डीजीसीए से मिले यह नोटिस पिछले एक साल में एयर इंडिया द्वारा डीजीसीए ने एयरसर्क A-320 किए गए, कुछ स्वैच्छिक खुलासों से संबंधित नियमों में लोग इंजनों के संबंध में निर्देश का पालन न करने पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के जिम्मेदार कर्मियों पर एक्सप्रेस के साथ लाख रुपये के फालन के साथ लॉन्ग लेटर जारी किया गया।

'एयर इंडिया प्लेनों में सबसे ज्यादा खामी'

देश की तमाम एयरलाइस में से सबसे अधिक एयर इंडिया एक्सप्रेस के हवाईजहाजों में सबसे अधिक तकनीकी खामियों के मामले सामने आए हैं। लोकसभा में गुरुवार को नागर विधान मंत्रालय ने बताया कि इस साल 21 जुलाई तक 183 विमानों में तकनीकी खामियों सामने आईं। इसे 85 खामियों एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की पालिटाई की थी।

## करगिल में ऑपरेशन विजय से ऑपरेशन सिंदूर तक... काफी आगे बढ़ गई तकनीक

Poonam.Pandey  
@timesofindia.com



■ ब्रास (करगिल): 26 जुलाई को देश कर्मियों युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की 26 वीं सालगिरह मनाया। 1999 में गयीं थीं सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद मुश्किल जंग को वीरता पूर्वक लड़ा। इसी साल मई डिविन आर्ड सेवोंसे ने एयर पाकिस्तान जिले के बीच संचार के सबके सिवाय। फलान्मात्र पर हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लान्च कर पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया।

करगिल युद्ध यानी ऑपरेशन विजय और आरोपरेशन सिंदूर, भी आतंकवाद के खिलाफ था। जहां ऑपरेशन विजय रक्षास्थक था, वहां ऑपरेशन सिंदूर आक्रमक जिसमें पाकिस्तान करगिल युद्ध में पाकिस्तान के आतंकवाद, घुसपैठ

### अनंत राज लिमिटेड

(सीआरआईएन: L45400HR 1985PLC021622)

प्रधान कार्यालय: पर्स-65, कॉन्टॉर सर्केस, नई दिल्ली-110001, दूरभास: 011-43034400, 011-23324127, 23323880, 43582879

ई-मेल: secretarial@anantrajlimited.com, वेबसाइट : www.anantrajlimited.com



### 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(प्रति शेयर डेटा को छोड़कर कोड रापये में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही				समाप्त वर्ष
		30.06.2025 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	31-03-2025 (लेखापरीक्षित)	
1.	प्रवालों से कुल आय (निवल)	602.40	550.90	481.66	2100.28	
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित मर्दों से पूर्व तथा एसोसिएट्स एवं संमुक्त रुप से नियंत्रित संसाधाओं में लाभ (हानि) का शेयर तथा अपवादित मर्दों के परवाना)	150.38	140.93	103.74	490.53	
3.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, पूर्व, एसोसिएट्स एवं संमुक्त रुप से नियंत्रित संसाधाओं में लाभ/(हानि) का शेयर तथा अपवादित मर्दों के परवाना)	150.38	140.93	103.74	490.53	
4.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित मर्दों के पश्चात तथा एसोसिएट्स एवं संमुक्त रुप से नियंत्रित संसाधाओं में लाभ/(हानि) का शेयर)	125.90	118.79	91.01	425.82	
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि तथा अवधि हेतु निवल लाभ)	125.90	117.88	91.01	421.07	
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 2/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	68.65	68.65	68.38	68.65	
7.	अन्य इक्विटी				4,092.14	
8.	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रत्येक के) (वार्षिकीकृत नहीं) (क) बैंकिंग ईपीएस (रु.) (ख) डाइलरेट ईपीएस (रु.)	3.67	3.47	2.66	12.43	
		3.67	3.47	2.66	12.43	

#### टिप्पणियां :

- 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के उपरेक्षत अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की गई है और 24 जुलाई, 2025 को आयोजित निवेश मंडल की संबंधित बैठकों में उके द्वारा अनुमोदित किया गया है। कम्पनी के साथीकृत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की गयी है।
- 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के आंकड़े, 31 मार्च, 2025 को समाप्त पूर्व वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़े और 31 दिसेंबर, 2024 को समाप्त नीतीहारी के अलेखापरीक्षित आंकड़ों के बीच संतुलनरूप आंकड़े हैं।
- ये अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम यथास्थ क्षेत्रों में लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की गयी है।
- तहत अधिकारित भारतीय लेखा मानक (इंड एपीएस) "अंतिम वित्तीय रिपोर्टिंग" की मानवान्तरी और वित्तीय परिणामों की साथीकृत समीक्षा की गयी है। उत्तर वित्तीय परिणाम अंतर राज लिमिटेड (ईपीएस), इसकी साथीकृत कंपनियों (एक साथ "सम्पर्क" के रूप में संदर्भित) और वित्तीय परिणामों की साथीकृत समीक्षा के लिए इसकी हिस्सेदारी की प्रतीक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग" और इंड एपीएस-28 एसोसिएट्स और संवृत्त उम्मीदों में निवेशों के अनुसार तैयार किया गया है।
- तिमाही समाप्त के बाद, 23 जुलाई, 2025 को आयोजित 40वीं वार्षिक आम बैठक में उके परवान वित्तीय परिणामों के बारे में रु. 0.73 प्रति इक्विटी शेयर (प्रति इक्विटी शेयर, रु. 2/- अंकित मूल्य) के रूप में रु. 25.06 कोड को अंकित लाभशाखा को मंजूरी दी गई है।
- 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के बारे में रु. 50 लाख मूल्य के गैर-परवर्तीनीय वित्तीय परिणाम कंपनी के वेबसाइट (www.anantrajlimited.com) पर उपलब्ध हैं।
- 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के कंपनी के टैट्डअलोन वित्तीय परिणाम कंपनी के वेबसाइट (www.anantrajlimited.com) पर उपलब्ध हैं।

(कोड रापये में)

क्र.सं.	विवरण	
---------	-------	--